

मुरादाबाद की पहाड़ी

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

दिल्ली का ऐतिहासिक स्थान **मुरादाबाद की पहाड़ी** हाल ही में चर्चा में आया है। 14वीं शताब्दी के **सूफी संत सैयद मुराद अली** के नाम पर बने इस स्थान पर अलग-अलग ऐतिहासिक काल की दो मस्जिदें हैं, जो इतिहासकारों और स्थानीय लोगों दोनों का ध्यान आकर्षित करती हैं।

मुरादाबाद की पहाड़ी के वषिय में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- इस स्थल पर **तुगलक** और लोदी राजवंशों की दो मस्जिदें हैं, जो उनकी विशिष्ट स्थापत्य शैली को दर्शाती हैं।
 - तुगलक-युग की मस्जिद को **कसाई वाला गुम्बद** के नाम से जाना जाता है।
 - **शाही मस्जिद** लोदी-युग की मस्जिद है जिसमें एक कमल कलश है।
- यहाँ सैयद मुराद अली का मकबरा स्थित है, जो जटलि मेहराबों और अलंकृत द्वारों से सुसज्जित है।
- इस जगह पर अब **अबदुल मन्ान अकादमी** नामक एक मदरसा है जो समुदाय की सेवा करता है और इस स्थल की वरिासत को संरक्षण करता है।



नोट:

- मुरादाबाद की पहाड़ी का मुरादाबाद शहर से कोई संबंध नहीं है क्योंकि इसका नाम सम्राट शाहजहाँ के बेटे **राजकुमार मुराद बख्श** के नाम पर रखा गया था।

तुगलक वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

- तुगलक वास्तुकला अपनी मज़बूत और ठोस संरचना के लिये जानी जाती है। इमारतों में **मंडलान वाली दीवारें** होती थीं, जिसे **बैटर** के नाम से जाना जाता है, ताकि गुंबदों की बढी हुई ऊँचाई को सहारा दिया जा सके।

- तुगलक शासकों ने अपने काल के दौरान भवनों के निर्माण में **मेहराब, सरदल और बीम के सदिधांतों को नवीनतापूर्वक संयोजित** किया।
- हट्टि रूपांकनों से प्राप्त जलपात्र और कमल जैसी सजावटी वस्तुओं को तुगलक वास्तुकला में शामिल किया गया, जिसके परणामस्वरूप **इंडो-इस्लामिक शैली** का विकास हुआ।
- **उल्लेखनीय तुगलक निर्माण:**
 - **तुगलकाबाद:** गयासुद्दीन तुगलक द्वारा स्थापित तुगलकाबाद दिल्ली का तीसरा शहर था जिसमें शहर, कला और महल दोनों शामिल थे। उसने बड़े पैमाने पर शहरी परिसरों की शुरुआत की।
 - **गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा:** इस मकबरे ने नई वास्तुकला प्रवृत्तियों को पेश किया जिसमें **ऊँचाई के लिये एक उच्च मंच**, एक सफेद संगमरमर गुंबद और सुंदरता के लिये लाल बलुआ पत्थर का उपयोग शामिल है। नुकीला या **'टार्टर' गुंबद** डिज़ाइन इंडो-इस्लामिक वास्तुकला की पहचान बन गया।
 - **जहाँपनाह:** मुहम्मद बनि तुगलक द्वारा निर्मित जहाँपनाह दिल्ली का चौथा शहर था जो राजवंश की शहरी नियोजन क्षमता को दर्शाता था।
 - **फरीज़ाबाद:** फरीज़ शाह तुगलक द्वारा सन् 1354 में निर्मित फरीज़ाबाद में **कुश्क-ए-फरीज़ महल** और **कोटला फरीज़ शाह गढ़** जैसी उल्लेखनीय संरचनाएँ शामिल थीं। फरीज़ शाह ने **कुतुब मीनार** में दो अतिरिक्त मंजिलें भी बनवाईं और **हौज़ खास का निर्माण** कराया।

लोदी वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

- लोदियों ने अपने काल के दौरान निर्माण में **मेहराब और लटिल-बीम दोनों वधियों का उपयोग किया**, जिससे विविध वास्तुशिल्प सदिधांतों में उनकी नपुणता प्रदर्शित हुई।
- उन्होंने बालकनियों, कथोसक और छज्जों (ओलती या ओरी अर्थात् किसी छत का कनारा) सहित **राजस्थानी एवं गुजराती वास्तुकला** के घटकों को अपनाया।
- लोदी काल (सन् 1451-1526) के दौरान, केवल मकबरों का निर्माण किया गया, जिनमें कठोर, स्पष्ट अष्टकोणीय डिज़ाइन थे, जिनका व्यास लगभग 15 मीटर था और एक ढलानदार बरामदा था।
 - **कई लोदी मकबरे ऊँचे चबूतरों पर बनाए गए थे** और उनके चारों ओर बगीचे थे, जो दृश्य रूप से आकर्षक व शांत वातावरण का परिचय देते थे।
- लोदी राजवंश के तहत एक **प्रमुख नवाचार दोहरे गुंबद वास्तुकला** की शुरुआत हुई। इस तकनीक में एक गुंबद का निर्माण किया गया, जिसमें आंतरिक और बाह्य आवरण को पृथक स्थान द्वारा अलग किया गया।
 - दोहरे गुंबदों का प्रयोग संरचना को मज़बूत करने और गुंबद की आंतरिक ऊँचाई को कम करने के लिये किया गया था।
- **उल्लेखनीय लोदी निर्माण:**
 - **लोदी गार्डन:** दिल्ली में स्थित यह विशाल उद्यान परिसर लोदी स्थापत्य शैली का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। इसमें कई महत्वपूर्ण संरचनाएँ शामिल हैं।
 - **सकिंदर लोदी का मकबरा:** अपनी दोहरी गुंबद वास्तुकला के लिये प्रसिद्ध यह मकबरा लोदी काल की संरचना का उदाहरण है।
 - **मोहम्मद शाह का मकबरा:** लोदी गार्डन में एक और प्रमुख मकबरा है, जो लोदी वास्तुकला की विशेषता को दर्शाता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये : (2018)

1. फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था।
2. लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा के निर्माण में लाल-बलुआ पत्थर तथा संगमरमर का प्रयोग हुआ था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (d)